



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012024-251568  
CG-DL-E-23012024-251568

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945

No. 309]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

का.आ. 324(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3115 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2023 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 जुलाई, 2023, में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 228.12 हेक्टर (लगभग) या 563.68 एकड़ माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 228.12 हेक्टर (लगभग) या 563.68 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि, अनुसूची में वर्णित 228.12 हेक्टर (लगभग) या 563.68 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या सी-1 (ई)/III/एफयूआर/1123/1005, तारीख 10 नवंबर, 2023 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय,

स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 के कार्यालय में या महा प्रबंधक (खनन), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व विभाग, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001, महाराष्ट्र के कार्यालय में किया जा सकता है।

### अनुसूची

गोकुल एक्सटेंशन ओपनकास्ट माईन

उमरेर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक धारक संख्या सी-1(ई)/III/एफयूआर/1123/1005, तारीख 10 नवंबर, 2023)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन			कुल (हेक्टेयर में)	टिपण्णियां
					काश्तकारी	सरकारी	वन		
1	खंडाझरी	41	भिवापुर	नागपुर	181.48	14.60	0.80	196.88	भाग
2	बेसुर	41	भिवापुर	नागपुर	15.16	2.64	0.00	17.80	भाग
3	सुकली	40	भिवापुर	नागपुर	7.48	0.16	0.00	7.64	भाग
4	पिराया	40	भिवापुर	नागपुर	4.21	0.28	1.31	5.80	भाग
कुल :					208.33	17.68	2.11	228.12	

कुल क्षेत्र = 228.12 हेक्टर (लगभग)

या 563.68 एकड़ (लगभग)

ग्राम खंडाझरी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

ग्राम खंडाझरी की काश्तकारी भूमि :

4(भाग), 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2/अ/1, 8/2/अ/2, 8/2/अ/3, 8/2/ब, 8/3/अ/1, 8/3/अ/2, 8/3/ब, 8/3/क, 8/4, 9, 10/अ/1/प/1, 10/अ/1/प/2, 10/अ/1/फ/1, 10/अ/1/फ/2, 10/अ/1/फ/3, 10/अ/2, 10/ब/1, 10/ब/2, 10/क/1, 10/क/2/ब, 10/क/2/ल, 11, 13(भाग), 14(भाग), 15/1, 15/2/1, 15/2/2, 15/2/3, 15/2/4, 16, 37(भाग), 38(भाग), 39/1, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2/अ, 42/2/ब, 43, 44(भाग), 60(भाग), 61(भाग), 62(भाग), 63, 64, 65(भाग), 66/अ, 66/ब, 66/क, 67/1, 67/2, 68, 69, 70(भाग), 86(भाग), 88(भाग), 89, 90, 91/1/अ, 91/1/ब, 91/2/अ, 91/2/ब, 92(भाग), 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1/अ, 103/1/ब, 103/2, 103/2/1, 103/2/2, 103/2/अ, 103/2/ब, 104, 105, 106(भाग), 107, 108(भाग), 153, 154(भाग), 155(भाग).

ग्राम खंडाझरी की सरकारी भूमि : 17, 18(भाग), रोड, नाला.

ग्राम खंडाझरी की वन भूमि: 72(भाग).

ग्राम बेसुर में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

ग्राम बेसुर की काश्तकारी भूमि :

191(भाग), 192(भाग), 193, 194(भाग), 200(भाग), 408.

ग्राम बेसुर की सरकारी भूमि : रोड, नाला.

ग्राम सुकली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

ग्राम सुकली की काश्तकारी भूमि :

7(भाग), 8(भाग), 9(भाग), 23/1/1, 23/1/2, 23/1/3, 23/1/4, 23/1/5, 23/2, 23/3, 23/4.

ग्राम सुकली की सरकारी भूमि : नाला.

ग्राम पिराया में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

ग्राम पिराया की काश्तकारी भूमि :

50, 52(भाग), 53, 54.

ग्राम पिराया की सरकारी भूमि : रोड, नाला.

ग्राम पिराया की वन भूमि: 116.

#### सीमा वर्णन:

- क - ख : रेखा ग्राम खंडाझरी में बिंदु 'क' से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्लाट संख्या 71, 77, 92, 91, 86, 88 में से गुजरती है, नाला पार कर प्लाट संख्या 107, 108, 106 से गुजरती है, सड़क पार कर बिंदु 'ख' से मिलती है।
- ख - ग : रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होकर पूर्व दिशा में प्लाट संख्या 155, 154 से गुजरती है और बिंदु 'ग' पर मिलती है।
- ग - घ : रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लाट संख्या 151, 152 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ - ड. : रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में नाले के दक्षिण तट से लगकर गुजरती है और बिंदु 'ड.' पर मिलती है।
- ड. - च : रेखा बिंदु 'ड.' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में ग्राम खंडाझरी एवं बेसुर की उभयनिष्ट सीमा से गुजरती है और बिंदु 'च' पर मिलती है।
- च - छ : रेखा बिंदु 'च' से आरंभ होकर दक्षिण - पश्चिम की ओर ग्राम खंडाझरी एवं बेसुर की उभयनिष्ट सीमा से गुजरती है और बिंदु 'छ' पर मिलती है।
- छ - ज : रेखा बिन्दु 'छ' से आरंभ होकर पूर्व दिशा में ग्राम पिराया में प्लाट संख्या 116 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।
- ज - झ : रेखा बिन्दु 'ज' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लाट संख्या 116 की बाहरी सीमा से गुजरती है और ग्राम पिराया में बिन्दु 'झ' पर मिलती है।
- झ - ञ : रेखा बिन्दु 'झ' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में पूर्व अधिग्रहीत प्लाट संख्या 114, 115 और 196/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।
- ञ - ट : रेखा बिंदु 'ञ' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में ग्राम बेसुर में प्लाट संख्या 408, 194 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिंदु 'ट' पर मिलती है।
- ट - ठ : रेखा बिन्दु 'ट' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लाट संख्या 53 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।
- ठ - ड : रेखा बिन्दु 'ठ' से आरंभ होकर पूर्व दिशा में प्लाट संख्या 54 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है।
- ड - ढ : रेखा बिन्दु 'ड' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लाट संख्या 54, 50, 49 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ढ' पर मिलती है।
- ढ - ण : रेखा बिन्दु 'ढ' से आरंभ होकर पूर्व दिशा में नाले के तट से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ण' पर मिलती है।

- ण – त : रेखा बिन्दु 'ण' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में ग्राम सुकली में प्लाट संख्या 23 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'त' पर मिलती है।
- त – थ : रेखा बिन्दु 'त' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में प्लाट संख्या 23 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'थ' पर मिलती है।
- थ – द : रेखा बिन्दु 'थ' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लाट संख्या 9,8 और 7 के (भाग) की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'द' पर मिलती है।
- द – ध : रेखा बिन्दु 'द' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में ग्राम सुकली में प्लाट संख्या 7 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'ध' पर मिलती है।
- ध – न : रेखा बिन्दु 'ध' से आरंभ होकर उत्तर दिशा में ग्राम सुकली में प्लाट संख्या 7,8,9,20,21,22 से गुजरती हुई बिन्दु 'न' पर मिलती है।
- न – प : रेखा बिन्दु 'न' से आरंभ होकर उत्तर दिशा में ग्राम पिराया में प्लाट संख्या 49, 51, 52 से गुजरती है तथा ग्राम बेसुर में प्लाट संख्या 201, 200 से गुजरती है बिन्दु 'प' पर मिलती है।
- प – फ : रेखा बिन्दु 'प' से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम बेसुर में प्लाट संख्या 194, 192, 191, 190 से गुजरती है तथा ग्राम खंडाझरी में प्लाट संख्या 12, 13,14 से गुजरती है बिन्दु 'फ' पर मिलती है।
- फ – ब : रेखा बिन्दु 'फ' से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में सड़क को पार करते हुये प्लाट संख्या 18, 38, 37, 44, 62,61 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'ब' पर मिलती है।
- ब – भ : रेखा बिन्दु 'ब' से आरंभ होकर उत्तर-पूर्व दिशा में प्लाट संख्या 60 और 72 की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'भ' पर मिलती है।
- भ – क : रेखा बिन्दु 'भ' से आरंभ होकर पूर्व दिशा में प्लाट संख्या 65, 67, 68,69,70 बाहरी सीमा से लगकर गुजरती हुई और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/05/2022-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2024

**S.O. 324(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3115(E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2023, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 13<sup>th</sup> July, 2023, the Central Government gave notice of its intention to acquire 228.12 hectares (approximately) or 563.68 acres (approximately) lands and all rights in or over such lands specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting to the Government of Maharashtra, is satisfied that the lands measuring 228.12 hectares (approximately) or 563.68 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that all rights in or over the land measuring 228.12 hectares (approximately) or 563.68 acres (approximately) as described in the said Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number C-I(E)/III/FUR/1123/1005, dated the 10<sup>th</sup> November, 2023 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Nagpur, Maharashtra or in the office of the Coal Controller, Scope Minar, 5<sup>th</sup> floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi-110092 or in the office of the Head of Department or General Manager (Mining), Land and Revenue Department, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001, Maharashtra.

**SCHEDULE**

Gokul Extension Opencast Mine

Umrer Area

District Nagpur (Maharashtra)

[Plan bearing number C-I (E)/III/FUR/1123/1005, dated the 10<sup>th</sup> November, 2023]

All Rights:

Serial Number	Name of Village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Description of land			Total (in hectares)	Remarks
					Tenancy	Govt.	Forest		
1	Khandazari	41	Bhivapur	Nagpur	181.48	14.60	0.80	196.88	Part
2	Besur	41	Bhivapur	Nagpur	15.16	2.64	0.00	17.80	Part
3	Sukli	40	Bhivapur	Nagpur	7.48	0.16	0.00	7.64	Part
4	Piraya	40	Bhivapur	Nagpur	4.21	0.28	1.31	5.80	Part
Total :					208.33	17.68	2.11	228.12	

Total Area = 228.12 hectares (approximately)  
or 563.68 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Khandazari:

Tenancy Land of village Khandazari:

4(Part), 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2/A/1, 8/2/A/2, 8/2/A/3, 8/2/B, 8/3/A/1, 8/3/A/2, 8/3/B, 8/3/C, 8/4, 9, 10/A/1/P/1, 10/A/1/P/2, 10/A/1/F/1, 10/A/1/F/2, 10/A/1/F/3, 10/A/2, 10/B/1, 10/B/2, 10/C/1, 10/C/2/V, 10/C/2/L, 11, 13(Part), 14(Part), 15/1, 15/2/1, 15/2/2, 15/2/3, 15/2/4, 16, 37(Part), 38(Part), 39/1, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2/A, 42/2/B, 43, 44(Part), 60(Part), 61(Part), 62(Part), 63, 64, 65(Part), 66/A, 66/B, 66/C, 67/1, 67/2, 68, 69, 70(Part), 86(Part), 88(Part), 89, 90, 91/1/A, 91/1/B, 91/2/A, 91/2/B, 92(Part), 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1/A, 103/1/B, 103/2, 103/2/1, 103/2/2, 103/2/A, 103/2/B, 104, 105, 106(Part), 107, 108(Part), 153, 154(Part), 155(Part).

Government Land of village Khandazari:

17, 18(Part), Road, Nalla.

Forest Land of Village Khandazari:

72(Part).

Plot numbers to be acquired in village Besur:

Tenancy Land of village Besur:

191(Part), 192(Part), 193, 194(Part), 200(Part), 408.

Government Land of village Besur:

Road, Nalla.

Plot numbers to be acquired in village Sukali:

Tenancy Land of Sukali village:

7(Part), 8(Part), 9(Part), 23/1/1, 23/1/2, 23/1/3, 23/1/4, 23/1/5, 23/2, 23/3, 23/4.

Government land of village Sukali:

Nalla.

Plot numbers to be acquired in village Piraya:  
 Tenancy land of village Piraya:  
 50, 52(Part), 53, 54.

Government land of village Piraya:  
 Road, Nalla.

Forest land of village Piraya:  
 116.

**Boundary description:**

- A – B: Line starts from point 'A' in village Khandazari and passes in South East direction, through Plot Numbers 71,77,92, 91, 86, 88, crosses the Nalla, then passes through plot numbers 107, 108, 106 crosses the road and meets at Point 'B'.
- B – C: Line starts from point 'B' and passes in East direction through plot numbers 155, 154 & meets at point 'C'.
- C – D: Line starts from point 'C' and passes in South direction along outer boundary of plot numbers 151 through plot number 152 and meets at point 'D'.
- D – E: Line starts from point 'D' and passes in the West direction along the Southern bank of Nalla and meets at point 'E'.
- E – F: Line starts from point 'E' and passes in the West direction along the common boundary of village Khandazari and Besur and meets at point 'F'.
- F – G: Line starts from point 'F' and passes in South West direction along the common boundary of village Khandazari and Besur and meets at point 'G'.
- G – H: Line starts from point 'G' and passes in East direction along the outer boundary plot number 116 and meets at point 'H' in village Piraya.
- H – I: Line starts from point 'H' and passes in South direction along the outer boundary of plot number 116 and meets at point 'I' in village Piraya.
- I – J: Line starts from point 'I' and passes in West direction along the boundary of already acquired plot nos. 114, 115, 196/1 and meets at point 'J'.
- J – K: Line starts from point 'J' and passes in South direction along the outer boundary of plot no. 408, 194 in village Besur and meets at point 'K'.
- K – L: Line starts from point 'K' and passes in South direction along the outer boundary of plot number 53 and meets at point 'L'.
- L – M: Line starts from point 'L' and passes in East direction along the outer boundary of plot number 54 and meets at Point 'M'.
- M – N: Line starts from point 'M' and passes in South direction along the outer boundary of plot number 54, 50, 49 of and meets at point 'N'.
- N – O: Line starts from point 'N' and passes in East direction along the bank of Nalla and meets at point 'O'.
- O – P: Line starts from point 'O', passes in South direction along the boundary of plot number 23 in village Sukali and meets at Point 'P'.
- P – Q: Line starts from point 'P', passes in West direction along the outer boundary of plot number 23 in and meets at point 'Q'.
- Q – R: Line starts from point 'Q', passes in South direction along the outer boundary of plot no. 9,8,7 and meets at point 'R'.
- R – S: Line starts from point 'R', passes in West direction along the outer boundary of plot no. 7 of village Sukali and meets at point 'S'.
- S – T: Line starts from point 'S', passes in North direction passing through part of plot no. 7,8,9,20,21,22 of village Sukali and meets at point 'T'.
- T – U: Line starts from point 'T', passes in North direction through plot numbers 49, 51, 52 in village Piraya then passes through plot numbers 201, 200 in village Besur and meets at point 'U'.

- U – V: Line starts from point ‘U’, passes in North West direction through plot numbers 194, 192, 191, 190 in village Besur, then passes through plot numbers 12, 13, 14 in village Khandazari and meets at point ‘V’.
- V – W: Line starts from point ‘V’, passes in North West direction, crosses the road then passes through plot numbers 18, 38, 37, 44, 62, 61 and meets at point ‘W’.
- W – X: Line starts from point ‘W’, passes in North East direction through plot numbers 60 and 72 and meets at point ‘X’.
- X – A: Line starts from point ‘X’, passes in East direction through plot numbers 65, 67, 68, 69, 70 and meets at Starting Point ‘A’.

[F.No. 43015/05/2022-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.